



energizeEASTSIDE

त्वरित तथ्य

प्युगैट साउंड एनर्जी (Puget Sound Energy, PSE) वह कंपनी है, जो आपके क्षेत्र में बिजली प्रदान करती है। एनर्जाइज़ ईस्टसाइड (Energize Eastside) एक परियोजना है, जो बेलव्यू में एक नए बिजली सबस्टेशन और रेडमंड से रेंटन तक एक नई विद्युत ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करेगी।

एनर्जाइज़ ईस्टसाइड की जरूरत क्यों हैं?

ईस्टसाइड में रहने और काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस वृद्धि से हमारी विद्युत प्रणाली पर जोर पड़ रहा है। PSE के द्वारा प्रणाली को अपग्रेड न करने पर बिजली चले जाने की संभावना बढ़ जाएगी।

PSE एनर्जाइज़ ईस्टसाइड का निर्माण कहाँ पर करेगी?

PSE इसके कई विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है कि नई लाइन कहाँ से जा सकती है। दाईं ओर का मानचित्र दर्शाता है कि किन क्षेत्रों या खंडों पर विचार किया जा रहा है। PSE को नई लाइन बनाने के लिए इनमें से कई खंडों का निर्माण करना होगा। नई लाइन रेडमंड में स्थित सम्मामिश नामक बिजली सबस्टेशन को रेंटन में स्थित टैल्बॉट हिल से जोड़ेगी। यह परियोजना तीन संभव स्थानों में से एक में एक नए सबस्टेशन का निर्माण भी करेगी, जिन्हें मानचित्र पर सफेद त्रिकोणों के रूप में दर्शाया गया है।

अक्षरों से लेबल की गई रंगीन लाइनें संभव मार्ग खंड हैं। कुल 16 खंड हैं, और हमें चुनाव करना है कि किन का निर्माण किया जाए। खंडों को जुड़कर सम्मामिश सबस्टेशन से टैल्बॉट हिल स्टेशन तक एक लाइन बनानी होगी। सबस्टेशनों को मानचित्र पर काले त्रिकोणों के रूप में दर्शाया गया है।


संभावित मार्ग खंड



मानचित्र प्रतीक

- ▲ मौजूदा सबस्टेशन ▲ संभावित सबस्टेशन स्थल A-N मार्ग खंड

बिजली आपके घर तक कैसे पहुँचती है



एनर्जाइज़ ईस्टसाइड क्या करेगी?

PSE ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया कि ईस्टसाइड को स्थिर बिजली मिले। समस्या के समाधान का एकमात्र तरीका है, अपने अति महत्वाकांक्षी परिरक्षण लक्ष्यों को पूरा करते रहना और एक नई ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण करना। ट्रांसमिशन लाइन ऊँचे खंभों पर लगे तारों का समूह होता है, जो बिजली को एक स्थान से दूसरे तक ले जा सकते हैं। यह नई लाइन रेडमंड, कर्कलैंड, बेलव्यू, न्यूकैसल और रेंटन शहरों तक अधिक बिजली पहुँचाएगी।

हमें आपकी मदद चाहिए

PSE को यह निश्चय करने में आपकी मदद चाहिए कि लाइन कहाँ निर्मित की जाए। अपनी बात कहें। परियोजना के वॉयसमेल को 1-800-548-2614 पर कॉल करें या हमें energizeeastside@pse.com पर ईमेल करें।

अधिक जानकारी के लिए



pse.com/energizeeastside



1-800-548-2614



energizeeastside@pse.com



Puget Sound Energy
P.O. Box 97034, EST06W
Bellevue, WA 98009-9734

जुलाई 2014